

## संयुक्त राज्य अमेरिका का श्रम विभाग

### बालश्रम के सबसे बुरे रूपों के बारे में 2021 के निष्कर्ष

#### भारत

2021 में, भारत ने बालश्रम के सबसे बुरे रूपों को<#खत्म#करने के प्रयास में मध्यम#प्रगति की। बिहार#की#राज्य#सरकार#ने#मुज़फ्फरपुर#आश्रय#गृह#मामले#में#जीवित#बचे#लोगों#के#लिए#सबसे#बड़ा#दर्ज#भुगतान#जारी#किया, जिसमें#व्यावसायिक#यौन#शोषण#के#उद्देश्य#से#7 से 17 वर्ष#की#आयु#के#बीच#की#44 लड़कियों#का#उत्पीड़न#शामिल#था।#इसके#अलावा, भारतीय#अधिकारियों#ने#2020-2021#के#दौरान#58,289#बच्चों#को#बाल#श्रम#से#बचाया, जो#पिछले#वर्षों#की#तुलना#में#अधिक#है।#जुलाई#2021#में,#तेलंगाना#में.#मानव तस्करी विरोधी इकाइयों#ने#भी#2,500#से#अधिक#बच्चों#को#बाल#श्रम#से#बचाया#और#राज्य#की#मानव#तस्करी#की#रोकथाम#और#पुनर्वास#प्रक्रियाओं#को#सुव्यवस्थित#किया।#हालांकि#सरकार#ने#रिपोर्टिंग#अवधि#के#दौरान#सभी#प्रासंगिक#क्षेत्रों#में#सार्थक#प्रयास#किए #सरकार#ने#अपने#श्रम#कानून#प्रवर्तन#या#आपराधिक#कानून#प्रवर्तन#प्रयासों#पर#सार्वजनिक#रूप#से#जानकारी#जारी#नहीं#की।#भारत#में#बच्चे#व्यावसायिक#यौन#शोषण#सहित #बाल#श्रम#के#सबसे#खराब#रूपों#का#सामना#करते#हैं #और#यह#कभी#मानव#तस्करी#के#परिणामस्वरूप#होता#है।#बच्चे#वस्त्र#उत्पादन #पत्थर#उत्खनन#और#ईट#बनाने#में#भी#खतरनाक#कार्य#करते#हैं।#जोखिमपूर्ण कार्य निषेध में वे सभी व्यवसाय शामिल नहीं हैं जिनमें बच्चे असुरक्षित तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करते हैं, और बच्चों को काम पर रखने की सजाएँ इतनी पर्याप्त नहीं हैं कि उल्लंघनों को रोक सकें। बाल#श्रम#अपराधों#के#प्रवर्तन#से#संबंधित#पुलिस#और#अन्य#सरकारी#अधिकारियों#के#बीच#व्यापक#भ्रष्टाचार#के#बारे#में#भी#गांभीर#चिंताएं#हैं #जिससे#इस#तरह#के#अपराधों#की#जांच#और#अभियोजन#में#सक्रिय#रूप#से#बाधा#आती#है #और#पीड़ितों#के#साथ#दुर्घटनाएँ#होती#हैं।#इसके#अलावा #आश्रय#गृहों#में#बच्चों#के#साथ#दुर्घटनाएँ#जारी#हैं#जो#पर्याप्त#सरकारी#निरीक्षण#या#जवाबदेही#के#बिना#चलाए#जाते#हैं।

#### बाल श्रम खत्म#करने के लिए सुझाई गई सरकारी कार्यवाहियां

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाही	सुझाव#का#क्रम
कानूनी ढांचा	काम के लिए न्यूनतम आयु उस आयु तक बढ़ाई जाए जब तक शिक्षा अनिवार्य है।	2018 – 2021
	यह सुनिश्चित किया जाए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जोखिमपूर्ण कामों पर निषेध#हो #जिनमें#ऐसे#क्षेत्र#शामिल#हैं #जिनमें#बच्चे#असुरक्षित#और#अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में लंबी अवधि तक काम करते हैं #जैसेकि कताई मिलें, वस्त्र-उत्पादन, कालीन निर्माण, और घरेलू काम।	2016 – 2021
	यह सुनिश्चित किया जाए कि गैर-सरकारी सशस्त्र दलों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती पर प्रतिबंध#लगाने#वाला#कानून#जम्मू#और#कश्मीर#सहित#भारत#के#सभी#क्षेत्रों#पर#लागू#हो।	2016 – 2021

	वह कानूनी दस्तावेज़ प्रकाशित किया जाए जो भारत की सशस्त्र सेना में स्वैच्छिक भर्ती के लिए न्यूनतम आयु स्थापित करता है।	2018 – 2021
प्रवर्तन	सुनिश्चित#किया#जाए#कि#भारत#में#श्रम#निरीक्षकों#की#संख्या#अंतर्राष्ट्रीय# श्रम#संगठन#श्रम#की#तकनीकी#सलाह#को#पूरा#करती#है#और#सभी# प्रांतों#में#बाल#श्रम#कानूनों#के#लागू#करने#के#लिए#प्रशिक्षित#और# ज़िमेदार#निरीक्षकों#की#संख्या#पर्याप्त#है।##	2021
#	सुनिश्चित#किया#जाए#कि#आंध्र#प्रदेश#में#लंबित#इकाइयां#सहित#मानव# तस्करी#रोधी#इकाइयां#पूरी#तरह#से#स्थापित#हैं।#	2021
	सुनिश्चित किया जाए कि मानव तस्करी रोधी इकाइयाँ#चालू#हैं#और#उन्हें# अपना#काम ठीक तरह से संपन्न करने के लिए पर्याप्त धन और मानव संसाधन प्राप्त#होते#हैं। सुनिश्चित#किया#जाए#कि#वित्त#पोषण#बुनियादी#ढांचे#के# सुधारों#से#आगे#तक#जाता#है#और#मानव#तस्करी#विरोधी#प्रयासों#के#लिए# निर्देशित#किया#जाता#है।	2019 – 2021
	श्रम कानून प्रवर्तन के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्र और प्रकाशित किए जाएं जिनमें श्रम-निरीक्षणालय के लिए धन का आंकड़ा, श्रम-निरीक्षकों की संख्या, किए गए निरीक्षणों की संख्या और किस्म, यह संख्या कि कितने बाल- श्रम उल्लंघन पाए गए, और उन बाल-श्रम उल्लंघनों की संख्या शामिल हो जिनके लिए जुर्माने लगाए और वसूल किए गए।#	2014 – 2021
	सुनिश्चित किया जाए कि श्रम तथा आपराधिक कानून निरीक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो, कि पर्याप्त संख्या में श्रम निरीक्षण किए जाएं, कि उन सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से श्रम निरीक्षण किए जाएं जहाँ बाल-श्रम होता है, और कि शिकायतों पर कार्यवाही#संबंधी#तंत्र समय की वृष्टि से कार्यकुशल हो।	2019 – 2021
	बंधुआ#श्रम#व्यवस्था#उन्मूलन#आधिनियम#के#तहत#बंधुआ#श्रम#और#श्रम# तस्करी#से#संबंधित#कानूनों#को#लागू#किया#जाए।#	2021
	सुनिश्चित#किया#जाए#कि#बंधुआ#मजदूरी#के#मामलों#में#तेजी#से#कार्रवाई# हो#रही#है#और#राज्य#सरकारें#बंधुआ#मजदूर#पीड़ितों#के#लिए#रिहाई# प्रमाण#पत्र#जारी#कर#रही#हैं#और#वित्तीय#सहायता#प्रदान#कर#रही#है#. # जिसमें#बंधुआ#मजदूरी#से#मुक्त#लोगों#के#लिए#पूरा#मुआवजा#भी#शामिल# है।#	2021
	सुनिश्चित#किया#जाए#कि#स्थानीय#और#राज्य#स्तर#पर#राजनीतिक#रूप#से# जुड़े#व्यक्ति#कृषि#और#ईंट#भट्टा#श्रमिकों#को#बंधुआ#मजदूरी#में#रखने#के# लिए#अभियोजन#का#सामना#करें।#	2021
	आपराधिक#जांचकर्ताओं#के#लिए#प्रशिक्षण .#आपराधिक#जांचों#की#संख्या .# पाए#गए#उल्लंघनों#की#संख्या .#शुरू#किए#गए#मुक़दमों#की#संख्या#और# दोषियों#की#संख्या#सहित#आपराधिक#कानून#प्रवर्तन#प्रयासों#पर#सभी# राज्य#सरकारों#से#राष्ट्रीय#स्तर#के#डेटा#एकत्र#और#प्रकाशित#किया#जाए।#	2009 – 2021#

<p>सुनिश्चित#किया#जाए#कि#बाल#श्रम#के#सबसे#खराब#रूपों#से#संबंधित# उल्लंघनों#के#लिए#दंड#लगाया#जाता#हो #और#आपराधिक#अधिकारियों# और#सामाजिक#सेवा औं#के#बीच#एक #पारस्परिक#परामर्श#व्यवस्था#मौजूद# हो।।#</p> <p>सुनिश्चित#किया#जाए#कि#जो#कानून#प्रवर्तन#अधिकारी#जो#मानव#तस्करी# से#बचे#लोगों#के#साथ#दुर्व्यवहार#करते#हैं#या#मामलों#में#देरी#करते#हैं#या# को#उन्हें#जोखिम#में#डालते#हैं .#वे#उचित#अनुशासनात्मक #कार्रवाई#का# सामना#करें।।#</p> <p>सुनिश्चित#किया#जाए#कि#कानून#प्रवर्तन#अधिकारी#बाल#श्रम#अपराधों#की# जांच#करते#हैं#और#बंधुआ#मजदूरी#से#जुड़े#मामलों#सहित .#मामलों#में# समयबद्ध#तरीके#से#प्रथम#सूचना#रिपोर्ट#दर्ज#करते#हैं।##</p> <p>बाल#श्रम#कानून#के#उल्लंघनों#को#सार्थक#रूप#से#रोकने#के#लिए#पर्याप्त# 2014 – 2021# रूप#से#महंगे#दंडों#को#लगातार#लागू#किया#जाए।।#</p> <p>सुनिश्चित#किया#जाए#कि#बाल#श्रम#के#सबसे#खराब#रूपों#में#मदद#करने# 2018 – 2021# वाले#या#इसमें#भाग#लेने#वाले#सरकारी#अधिकारियों#को#जवाबदेह# ठहराया#जाए .#जिसमें#वे#अधिकारी#भी#शामिल#हैं#जो#कानून#से#सुरक्षा#के# बदले#में#रिश्वत#लेते#हैं।।#</p> <p>सुनिश्चित#किया#जाए#कि#अदालतों#में#उत्तरजीवी#सुरक्षा#उपायों#को#लागू# 2020 – 2021# किया#जाए#और#यह#सुनिश्चित#किया#जाए#कि#यौन#अपराधों#से#बच्चों#का# संरक्षण#अधिनियम#अदालतों#के#न्यायाधीशों#और#अभियोजकों#के#पास# बच्चों#के#व्यावसायिक#यौन#शोषण#से#जुड़े#अपराधों#पर#पर्याप्त#प्रशिक्षण# या#विशेषज्ञता#है।।#</p> <p>सरकार#द्वारा#संचालित#और#सरकार#द्वारा#वित्त#पोषित .#और#निजी#तौर# 2018 – 2021# पर#संचालित#आश्रय#गृहों#में#संदिग्ध#दुर्व्यवहार#और#दुराचार#की#जांच#की# जाए .#और#यह#सुनिश्चित#किया#जाए#कि#सभी#आश्रय#गृह#पंजीकृत#हैं# और#पर्याप्त#निरीक्षण#के#अधीन#हैं .#उनमें#बच्चों#को#शारीरिक#और#यौन# शोषण#से#बचाने#के#लिए#तंत्र#मौजूद#हैं .#और#सभी#स्टाफ#सदस्य# दुर्व्यवहार#के#संकेतों#को#पहचानने#और#रिपोर्ट#करने#के#बारे#में#पर्याप्त# प्रशिक्षण#प्राप्त#करते#हैं।।#</p> <p>सुनिश्चित#किया#जाए#कि#कानून#प्रवर्तन#एजेंसियों#के#पास#मानव#तस्करों# 2020 – 2021# द्वारा#उपयोग#किए#जाने#वाले#तकनीकी#उपकरणों#पर#प्रतिक्रिया#करने#के# लिए#पर्याप्त#तकनीकी#और#वित्तीय#संसाधन#हैं।।#</p> <p>मानव#तस्करी#के#मामलों#के#लिए#अभियोजन#दर#को#बढ़ाया#जाए#और# 2021# दोषसिद्धि#के#बाद#पर्याप्त#सज्ञा#की#मांग#की#जाए।।#</p>	<p>2021#</p> <p>2021#</p> <p>2021#</p> <p>2014 – 2021#</p> <p>2018 – 2021#</p> <p>2020 – 2021#</p> <p>2018 – 2021#</p> <p>2020 – 2021#</p> <p>2021#</p>
--	---

समन्वय	सुनिश्चित#किया#जाए#कि#मानव#तस्करी#के#मामलों#को#सही#इकाई#में# स्थानांतरित#करने#सहित#स्थानीय#पुलिस#और#मानव#तस्करी#रोधी# इकाइयों#*AHTUs#के#बीच#समन्वय#तंत्र#मौजूद#है।#	2021#
सरकारी नीतियां	जिन#राज्यों#और#क्षेत्रों#के#पास#वर्तमान#में#बाल#श्रम#के#उन्मूलन#के#लिए# कार्य#योजना#नहीं#है#उन्हें#ऐसी#योजनाओं#को#स्थापित#करने#के#लिए# प्रोत्साहित#किया#जाए।#	2011 – 2021
	सुनिश्चित#किया#जाए#कि#बच्चों#के#लिए#राष्ट्रीय#कार्य#योजना#और#राज्य# कार्य#योजना#को#लागू#करने#के#लिए#गतिविधियाँ#की#जाती#हैं#और# रिपोर्टिंग#अवधि#के#दौरान#कार्यान्वित#गतिविधियों#के#परिणाम#प्रकाशित# किए#जाते#हैं।	2018 – 2021
सामाजिक कार्यक्रम	दूरस्थ शिक्षा संपत्तियों को समर्पित पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराके तथा# बच्चों#के#भेदभाव#और#उत्पीड़न#में#लिप्त#शिक्षा#अधिकारियों#को#दंडित# करके#शिक्षा#के#लिए#समान#और#व्यापक#पहुँच#सुनिश्चित#की#जाए।#	2014 – 2021
	शिक्षा#के#प्रति#बाधाओं#को#.विशेष#रूप#से#शरणार्थी#बच्चों#तथा#वंचित# समुदायों#के#बच्चों#के#लिए#बाधाओं#को#कम#किया#जाए#और#यह#काम# अध्यापकों#को#पर्याप्त#प्रशिक्षण#देकर#.लड़कियों#के#लिए#अलग#और# साफ#सुधरे#गुसलखाने#उपलब्ध#कराके#.तथा#उपलब्ध#स्कूलों#की#संख्या# बढ़ाकर#किया#जा#सकता#है#.विशेष#रूप#से#ग्रामीण#क्षेत्रों#में#जहाँ# अपर्याप्त#आधारिक#संरचना#तथा#परिवहन#विकल्प#शिक्षा#तक#पहुँच#को# सीमित#करते#हैं।#	2021
	सुनिश्चित#किया#जाए#कि#शोषणकारी#बाल#श्रम#के#बारे#में#आंकड़े# एकत्रित#किए#जाएं#और#निष्कर्ष#सार्वजनिक#रूप#से#उपलब्ध#कराए#जाए#. जिनमें#ज़िला#स्तर#पर#बंधुआ#श्रम#सर्वेक्षणों#से#मिले#निष्कर्ष#तथा#राष्ट्रीय# जनगणना#से#प्राप्त#कच्चे#आंकड़े#शामिल#हैं।#	2009 – 2021
	सुनिश्चित#किया#जाए#कि#उज्ज्वला#और#स्वाधार#गृह#आश्रय#स्थान#लाइसेंस# प्राप्त#करने#के#लिए#पंजीकरण#दिशानिर्देशों#को#पूरा#करते#हैं#.जिसमें# निर्धारित#समय#सीमा#के#भीतर#आवेदनों#पर#कार्रवाई#करना#शामिल#है।#	2021
	सुनिश्चित#किया#जाए#कि#आश्रय#गृह#सुरक्षित#हैं#और#हॉस्टलों#के#रूप#में# काम#नहीं#कर#रहे#हैं#.जिसमें#गैर#उत्तरजीवी#मेहमानों#को#आवास#प्रदान# करना#शामिल#है।#	2021